



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 26—फरवरी 1, 2013 (माघ 6, 1934)
No. 4] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 26—FEBRUARY 1, 2013 (MAGHA 6, 1934)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

विषय-सूची	पृष्ठ सं.	पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं.....	23	छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं..... *
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	113	भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)..... *
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	1	भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश..... *
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	101	भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं..... 65
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम..... *		भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस..... *
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ..... *		भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं..... *
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट..... *		भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं..... 131
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)..... *		भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस..... 285
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को		भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूर्णक..... *

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	Page No.		Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	23	Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	113	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	1	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	101	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	65
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	131
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	285
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the		PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received.

भाग I — खण्ड 1**[PART I—SECTION 1]**

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

वस्त्र मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 9 जनवरी 2013

संकल्प

सं. 1/7/2012-कॉटन--भारत सरकार ने अक्टूबर, 1950 में मूल रूप से गठित और अंतिम बार 05 मई, 2010 को दो वर्ष के लिए पुनर्गठित और 31.12.2012 तक बढ़ा दिए गए कपास सलाहकार बोर्ड के पुनर्गठन का निर्णय लिया है और इसकी संरचना इस प्रकार होगी :--

केन्द्र सरकार के प्रतिनिधि

1. वस्त्र आयुक्त,
भारत सरकार,
वस्त्र मंत्रालय,
मुंबई। अध्यक्ष
2. संयुक्त सचिव, कपास के प्रभारी,
वस्त्र मंत्रालय,
नई दिल्ली। सदस्य
3. संयुक्त सचिव, फसल प्रभारी,
कृषि मंत्रालय,
कृषि भवन, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद रोड,
नई दिल्ली-110001। सदस्य
4. निदेशक,
कपास विकास निदेशालय (एमएम-II),
कृषि एवं सहकारिता विभाग,
कृषि मंत्रालय,
14, रामजीभाई कमानी मार्ग, बेलार्ड इस्टेट,
पो.बो. नं. 1002, मुंबई-400038। सदस्य
5. निदेशक, सीआईसीआर-नागपुर
पो. बो. नं.-2, शंकर नगर,
पो. ओ.-नागपुर-440010 सदस्य
6. अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक,
भारतीय कपास निगम लि.,
कपास भवन, प्लॉट नं. 3/ए,
सेक्टर नं. 10, सीबीडी बेलपुर,
नवी मुंबई-400614। सदस्य

7. प्रबंध निदेशक, नैफेड
1, सिद्धार्थ एन्क्लेव, आश्रम चौक,
रिंग रोड,
नई दिल्ली-110014। सदस्य

8. निदेशक (कपास)
वस्त्र मंत्रालय,
उद्योग भवन, नई दिल्ली। सदस्य

9. डीजीएफटी के नामिती,
वणिज्य मंत्रालय,
उद्योग भवन,
नई दिल्ली। सदस्य

- राज्य सरकार
10. आयुक्त/निदेशक
(कृषि के प्रभारी),
शिवाजी नगर
महाराष्ट्र सरकार,
पुणे-411005। सदस्य

11. आयुक्त/निदेशक,
(कृषि के प्रभारी),
गुजरात सरकार,
कृषि भवन,
अहमदाबाद-380006। सदस्य

12. आयुक्त/निदेशक,
(कृषि के प्रभारी),
आंध्र प्रदेश सरकार,
लाल बहादुर स्टेडियम के सामने,
हैदराबाद-500001। सदस्य

- कपास व्यापार
13. प्रबंध निदेशक,
महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव कॉटन ग्राउंडर्स मार्केटिंग
फेडरेशन लि.,
खेतान भवन, जे. टाय रोड,
चर्चगेट,
मुंबई-400020। सदस्य

कपास अनुसंधान एवं विकास		4. निदेशक, कपास विकास निदेशालय (एमएम-II), कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, 14, रामजीभाई कमानी मार्ग, बेलार्ड इस्टेट, पो. बो. नं. 1002, मुंबई-400038 ।	सदस्य
14. महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, पूसा, नई दिल्ली ।	सदस्य		
15. निदेशक, अहमदाबाद वस्त्र उद्योग अनुसंधान संघ (अटिरा), पोस्ट ऑफिस-अम्बावाडी विस्तार, अहमदाबाद-380015 ।	सदस्य	5. निदेशक, सीआईसीआर-नागपुर पो. बाक्स नं. 2, शंकर नगर, पो. ओ. नागपुर-440010 ।	सदस्य
16. निदेशक, दक्षिण भारत वस्त्र अनुसंधान संघ (सिट्रा) कोयम्बटूर, 41 शानमुखा मानराम, पो.बा.नं. 3871, रेसकोर्स, कोयम्बटूर-641018, तमिलनाडु ।	सदस्य	6. अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, भारतीय कपास निगम लि., कपास भवन, प्लॉट नं. 3/ए, सेक्टर नं. 10, सीबीडी बेलपुर, नवी मुंबई-400614 ।	सदस्य
17. निदेशक, केन्द्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान (सिरकोट), अदेनवाला रोड, माटूंगा, मुंबई ।	सदस्य	7. प्रबंध निदेशक, नैफेड, 1, सिद्धार्थ एन्क्लेव, आश्रम चौक, रिंग रोड, नई दिल्ली-110014 ।	सदस्य
सदस्य सचिव			
18. संयुक्त वस्त्र आयुक्त (कपास), वस्त्र आयुक्त का कार्यालय, मुंबई-400020 ।	सदस्य सचिव	8. निदेशक (कपास) वस्त्र मंत्रालय, उद्योग भवन नई दिल्ली ।	सदस्य
2. उपर्युक्त यथापुनर्गठित किया गया कपास सलाहकार बोर्ड दिनांक 01 जनवरी, 2013 से दो वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा ।		9. डीजीएफटी के नामिती, वाणिज्य मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली ।	सदस्य
3. बोर्ड सरकार को सामान्यतः कपास के उत्पादन, खपत तथा विपणन से संबंधित मामलों पर सलाह देगा ।		10. डीजीसीआई एंड एस के नामिती, वाणिज्य मंत्रालय, 565, आनंदापुर, वार्ड नं. 108, सेक्टर -1, प्लॉट सं. 22, ईसीएडीपी, कोलकाता-700107 ।	सदस्य
4. कपास सलाहकार बोर्ड एक परामर्शी प्रक्रिया के माध्यम से कपास वस्त्र मिल उद्योग, कपास उत्पादकों तथा कपास के व्यापारियों से जानकारी प्राप्त करेगा । परामर्शदात्री समिति की बैठक, कपास सलाहकार बोर्ड की बैठक से पहले आयोजित की जाएगी परामर्शदात्री समिति की सिफारिशों पर कपास सलाकार बोर्ड द्वारा विचार किया जाएगा । कपास सलाहकार बोर्ड की परामर्शदात्री समिति का गठन इस प्रकार है :--		राज्य सरकार	
1. वस्त आयुक्त, भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय, मुंबई ।	अध्यक्ष	1. आयुक्त/निदेशक, (कृषि के प्रभारी), महाराष्ट्र सरकार, शिवाजी नगर, पुणे-411005 ।	सदस्य
2. संयुक्त सचिव, कपास के प्रभारी, वस्त्र मंत्रालय, नई दिल्ली ।	सदस्य	2. आयुक्त/निदेशक, (कृषि के प्रभारी), गुजरात सरकार, कृषि भवन, अहमदाबाद-380006 ।	सदस्य
3. संयुक्त सचिव, फसल प्रभारी, कृषि मंत्रालय, कृषि भवन, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद मार्ग, नई दिल्ली-110001 ।	सदस्य	3. आयुक्त/निदेशक, (कृषि के प्रभारी), मध्य प्रदेश सरकार, विंध्याचल भवन, भोपाल-462004 ।	सदस्य

4. आयुक्त/निदेशक, (कृषि के प्रभारी), आंध्र प्रदेश सरकार, लाल बहादुर स्टेडियम के सामने, हैदराबाद-500001।	सदस्य	3. अध्यक्ष, टेक्सप्रोसिल, गांव एवं पोस्ट-वीरावनल्लुर, तिरुनेलवेल्ली जिला, तमिलनाडु।	सदस्य
5. आयुक्त/निदेशक, (कृषि के प्रभारी), कर्नाटक सरकार, नं. 1 शेषाद्री रोड, बेंगलूर-560001।	सदस्य	4. अध्यक्ष, उत्तर भारतीय वस्त्र मिल संघ, 121, गगनदीप बिल्डिंग, प्रथम तल, 12 राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली।	सदस्य
6. आयुक्त/निदेशक, (कृषि के प्रभारी), तमिलनाडु सरकार, चेपक, चेन्नै-600005।	सदस्य	5. अध्यक्ष, दक्षिण भारतीय मिल संघ, 41, रेसकोर्स, कोयम्बटूर-641018, तमिलनाडु।	सदस्य
7. आयुक्त/निदेशक, (कृषि के प्रभारी), राजस्थान सरकार, कृषि भवन, भगवानदास रोड, जयपुर-302005।	सदस्य	6. अध्यक्ष, तमिलनाडु स्पिनिंग मिल संघ, #2, करूर रोड (बेसछी कालेज के निकट) मार्डन नगर, डिंडीगुल-624001 तमिलनाडु।	सदस्य
8. आयुक्त/निदेशक, (कृषि के प्रभारी), पंजाब सरकार, एस.सी.ओ. 85-6, सेक्टर-35, पिकेडली सिनेमा के सामने, चंडीगढ़।	सदस्य	7. अध्यक्ष, आंध्र प्रदेश स्पिनिंग मिल संघ 105, प्रथम तल, सूर्या टावर्स, सरकार पटेल मार्ग, सिकंदराबाद-500003 आंध्र प्रदेश।	सदस्य
9. आयुक्त/निदेशक, (कृषि के प्रभारी), हरियाणा सरकार, कांडी विकास भवन, सेक्टर-21, पंचकुला, हरियाणा-134109।	सदस्य	कपास व्यापार	
10. आयुक्त/निदेशक, (कृषि के प्रभारी), उड़ीसा सरकार, मुख्य विभागीय भवन, भुवनेश्वर-751001।	सदस्य	1. प्रबंध निदेशक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी कपास उत्पादक विपणन फेडरेशन लिमि. खेतान भवन, जे. टाटा रोड, चर्च गेट, मुंबई-400020।	सदस्य
वस्त्र उद्योग		2. अध्यक्ष, कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, 2सरी मंजिल, कॉटन एक्सचेंज बिल्डिंग, कॉटन ग्रीन, मुंबई-400033।	सदस्य
1. अध्यक्ष, कनफेडरेशन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज (सीआईटीआई) 6वीं मंजिल, नारायण मंजिल, 23, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001।	सदस्य	3. अध्यक्ष, ऑल इंडिया कोऑपरेटिव कॉटन फेडरेशन लि., सिल्वर आर्क, ए ब्लॉक, टॉउन हॉल के पीछे, इलिसब्रिज, अहमदाबाद-380006	सदस्य
2. अध्यक्ष, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लि., कैनरा बिल्डिंग, दूसरी मंजिल, डी एन रोड, मुंबई-400001।	सदस्य	4. अध्यक्ष/सचिव, द साउथ इंडिया काटन एसोसिएशन (सीका), पो. बो. नं. 3310, 477, कमाराजार रोड, उपलिपल्लयम पोस्ट, कोयम्बटूर-641015।	सदस्य
		5. अध्यक्ष, फॉरवार्ड मार्केट कमीशन, एवरेस्ट, तीसरा तल, 100, मरीन ड्राइव, मुंबई-400002	सदस्य
		जिनिंग एवं प्रेसिंग क्षेत्र	
		1. अध्यक्ष/सचिव, ऑल गुजरात कॉटन जिनर्स एसोसिएशन, द्वारा श्रीनाथ ज्वैलर्स, गंडी चौक, कडो-328715, जिला-मेहसाणा, गुजरात।	सदस्य

- | | | |
|---|--------------|--|
| <p>2. अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक,
ऑल इंडिया सीड क्रसर्स एसोसिएशन,
(एआईसीएससीए), खेतान भवन, 6 मंजिल,
198, जमशेद टाटा रोड, चर्चगेट, मुंबई-400020।</p> | <p>सदस्य</p> | <p>5. परामर्शदात्री समिति की बैठक का अनुसरण करते हुए सीएबी कॉटन बैलेंस शीट को तैयार करने के लिए अलग से बैठक आयोजित करेगा।</p> |
| <p>3. अध्यक्ष,
नादर्न इंडिया कॉटन एसोसिएशन लि.,
नई बस्ती, गली नं. 6, भटिंडा-151001 (पंजाब)
दूरभाष-0164-2237945
फैक्स नं.-0164-22552688।</p> | <p>सदस्य</p> | <p>6. गैर-सरकारी सदस्यों को बोर्ड/परामर्शदात्री समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए वित्त मंत्रालय के अनुदेशों के अनुसार यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता दिया जाएगा। वस्त्र आयुक्त कपास अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले लोगों को परामर्शदात्री समिति की बैठकों में आमंत्रित कर सकते हैं।</p> <p>7. बोर्ड की बैठक में उपस्थिति केवल सदस्यों तक ही सीमित रहेगी।</p> <p>8. आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी संबंधित व्यक्तियों को भेजी जाए।</p> |
| <p>4. अध्यक्ष,
तमिलनाडु कॉटन जिनिंग प्रेसिंग ट्रेडर्स एंड ग्रोवर्स
फेडरेशन, पोल्लाची-642004,
जिला-कोयम्बटूर, तमिलनाडु।</p> | <p>सदस्य</p> | <p>9. यह भी आदेश दिया जाता है कि इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।</p> |

आर. के. श्रीवास्तव
अवर सचिव

MINISTRY OF TEXTILES

New Delhi, the 9th January 2013

RESOLUTION

No.1/7/2012-Cotton—The Government of India has decided to reconstitute the Cotton Advisory Board, originally constituted in October, 1950 and last reconstituted on 5th May, 2010, for two years and since extended upto 31st December, 2012 with the following composition :—

REPRESENTATIVES OF CENTRAL GOVERNMENT

- | | |
|--|----------|
| 1. Textile Commissioner,
Government of India,
Ministry of Textiles,
Mumbai. | Chairman |
| 2. Joint Secretary, In-charge of Cotton,
Ministry of Textiles,
New Delhi. | Member |
| 3. Joint Secretary, In-charge of Crops
Ministry of Agriculture,
Krishi Bhawan, Dr. Rajendra Prasad Road,
New Delhi-110001. | Member |
| 4. Director,
Directorate of Cotton Development (MM-II)
Deptt. of Agriculture & Co-operation,
Ministry of Agriculture,
14, Ramjibhai Kamani Marg, Bellard Estate,
P.O. Box. 1002, Mumbai-400038. | Member |
| 5. Director, CICR-Nagpur
P.B. No. 2, Shankar Nagar,
P.O. Nagpur-440010. | Member |
| 6. Chairman-cum-Managing Director
Cotton Corporation of India Ltd.,
Kapas Bhawan, Plot No. 3/A,
Sector No. 10, CBD Belapur,
Navi Mumbai-440614. | Member |
| 7. Managing Director,
NAFED,
1, Sidharth Enclave,
Ashram Chowk, Ring Road,
New Delhi-110014. | Member |
| 8. Director (Cotton),
Ministry of Textiles,
Udyog Bhawan,
New Delhi. | Member |
| 9. Nominee of the DGFT
Ministry of Commerce
Udyog Bhawan, New Delhi. | Member |

STATE GOVERNMENTS

- | | |
|---|--------|
| 10. Commissioner/Director
(Incharge of Agriculture),
Government of Maharashtra,
Shivaji Nagar,
Pune-411005. | Member |
|---|--------|

- | | |
|--|--------|
| 11. Commissioner/Director
(Incharge of Agriculture),
Government of Gujarat,
Krishi Bhawan,
Ahmedabad-380006. | Member |
|--|--------|

- | | |
|---|--------|
| 12. Commissioner/Director
(Incharge of Agriculture)
Government of Andhra Pradesh,
Opp. Lal Bahadur Stadium,
Hyderabad-500001. | Member |
|---|--------|

COTTON TRADE

- | | |
|---|--------|
| 13. Managing Director,
Maharashtra State Cooperative Cotton
Growers Marketing Federation Ltd.,
Khetan Bhawan, J. Tata Road,
Churchgate,
Mumbai-400020. | Member |
|---|--------|

COTTON RESEARCH & DEVELOPMENT

- | | |
|---|--------|
| 14. Director General,
Indian Council of Agriculture Research
PUSA,
New Delhi. | Member |
| 15. Director,
Ahmedabad Textile Industry's
Research Association (ATIRA),
P.O. Ambawadi Vistar,
Ahmedabad-380015. | Member |
| 16. Director,
South India Textiles Research Association
(SITRA)
Coimbatore
41, Shanmukha Manram
Post Box No. 3871, Race Course
Coimbatore-641018, Tamil Nadu. | Member |
| 17. Director,
Central Institute for Research in Cotton
Technology (CIRCOT),
Adenwala Road, Matunga,
Mumbai. | Member |

MEMBER SECRETARY

- | | |
|---|------------------|
| 18. Joint Textile Commissioner (Cotton),
Office of the Textile Commissioner,
Mumbai-400020. | Member-Secretary |
|---|------------------|

2. The Cotton Advisory Board (CAB) as reconstituted above, will be effective for a period of two years w.e.f. 1st January, 2013.

3. The Board will advise the Government generally on matters pertaining to production, consumption and marketing of cotton.

4. The Cotton Advisory Board, through a consultative process will seek inputs from Cotton Textiles Mill Industry,

the cotton growers and cotton traders. The Consultative Committee shall meet prior to the formal meeting of the Cotton Advisory Board. The inputs of the Consultative Committee recommendations shall be considered by the CAB. The Consultative Committee of the CAB will have the following composition :

REPRESENTATIVES OF CENTRAL GOVERNMENT

- | | |
|---|----------|
| 1. Textile Commissioner,
Government of India,
Ministry of Textiles,
Mumbai. | Chairman |
| 2. Joint Secretary, In-charge of Cotton,
Ministry of Textiles,
New Delhi. | Member |
| 3. Joint Secretary, In-charge of Crops
Ministry of Agriculture,
Krishi Bhawan, Dr. Rajendra Prasad Road,
New Delhi-110001. | Member |
| 4. Director,
Directorate of Cotton Development (MM-II),
Deptt. of Agriculture & Co-operation,
Ministry of Agriculture,
14, Ramjibhai Kamani Marg, Bellard Estate,
P.O. Box. 1002, Mumbai-400038. | Member |
| 5. Director, CICR-Nagpur
P.B. No. 2, Shankar Nagar,
P.O. Nagpur-440010. | Member |
| 6. Chairman-cum-Managing Director,
Cotton Corporation of India Ltd.,
Kapas Bhawan, Plot No. 3/A,
Sector No. 10, CBD Belapur,
Navi Mumbai-440614. | Member |
| 7. Managing Director,
NAFED,
1, Sidharth Enclave,
Ashram Chowk, Ring Road,
New Delhi-110014. | Member |
| 8. Director (Cotton),
Ministry of Textiles,
Udyog Bhawan,
New Delhi. | Member |
| 9. Nominee of the DGFT,
Ministry of Commerce
Udyog Bhawan, New Delhi. | Member |
| 10. Nominee of DGCI&S,
Ministry of Commerce
565, Anandapur, Ward No. 108
Sector-1, Plot No. 22, ECADP
Kolkatta-700107. | Member |

STATE GOVERNMENTS

- | | |
|---|--------|
| 1. Commissioner/Director
(Incharge of Agriculture),
Government of Maharashtra,
Shivaji Nagar,
Pune-411005. | Member |
| 2. Commissioner/Director,
(Incharge of Agriculture),
Government of Gujarat,
Krishi Bhawan,
Ahmedabad-380006. | Member |
| 3. Commissioner/Director,
(Incharge of Agriculture)
Government of Madhya Pradesh,
Vindhyachal Bhawan,
Bhopal-462004. | Member |
| 4. Commissioner/Director,
(Incharge of Agriculture)
Government of Andhra Pradesh,
Opp. Lal Bahadur Stadium,
Hyderabad-500001. | Member |
| 5. Commissioner/Director,
(Incharge of Agriculture)
Government of Karnataka,
No. 1, Sheshadari Road
Bangalore-560001. | Member |
| 6. Commissioner/Director
(Incharge of Agriculture),
Government of Tamil Nadu,
Chepuk,
Chennai-600005. | Member |
| 7. Commissioner/Director,
(Incharge of Agriculture),
Government of Rajasthan,
Krishi Bhawan, Bhagwandas Road,
Jaipur-302005. | Member |
| 8. Commissioner/Director,
(Incharge of Agriculture),
Government of Punjab,
SCO 85-6, Sector 35,
Opp. Pickadily Cinema,
Chandigarh. | Member |
| 9. Commissioner/Director
(Incharge of Agriculture),
Government of Haryana,
Kandi Vikas Bhawan,
Sector-21, Panchkula,
Haryana-134109. | Member |
| 10. Commissioner/Director,
(Incharge of Agriculture),
Government of Orissa,
Head of Deptt. Building,
Bhubaneswar-751001. | Member |

TEXTILE INDUSTRY

- | | | | |
|--|--------|--|--------|
| 1. Chairman,
Confederation of Indian Textile
Industry (CITI) 6th Floor,
Narain Manzil,
23, Barakhamba Road,
New Delhi-110001. | Member | 3. Chairman,
All India, Cooperative Cotton
Federation Ltd., Silver Arc,
'A' Block, Behind Town Hall,
Ellisbridge, Ahmedabad-380006. | Member |
| 2. President
All India Federation of Cooperative
Spinning Mills Ltd., Canara Building,
2nd Floor, D.N. Road, Mumbai-400001. | Member | 4. Chairman/Secretary,
The South India Cotton Association (SICA),
Post Box No. 3310,
477, Kamarajar Road,
Uppilipalayam Post,
Coimbatore-641015. | Member |
| 3. Chairman,
TEXPROCIL
Vill. & Post-Veeravanallur,
Tirunelveli District,
Tamil Nadu. | Member | 5. Chairman,
Forward Market Commission,
Everest, 3rd Floor, 100 Marine Drive,
Mumbai-400002. | Member |
| GINNING & PRESSING SECTOR | | | |
| 4. Chairman,
Northern India Textile Mills Association
121, Gagandeep Building, 1st Floor
12, Rajendra Place, New Delhi. | Member | 1. President/Secretary,
All Gujarat Cotton Ginners Association,
C/o Shreenath Jewelers,
Ganthi Chowk, Kadi-328715
Distt. Mehsana, Gujarat. | Member |
| 5. Chairman,
The Southern India Mills Association,
41, Race Course,
Coimbatore-641018.
Tamil Nadu. | Member | 2. Chairman/Managing Director,
All India Cotton Seed Crushers Association
(AICSCA), Khetan Bhawan, 6th Floor,
198, Jamshed Tata Road,
Mumbai-400020. | Member |
| 6. Chairman,
Tamil Nadu Spinning Mills Association
#2, Karur Road (Near Beschi College)
Modern Nagar, Dindigul-624001
Tamil Nadu. | Member | 3. President,
Northern India Cotton Association Ltd.,
Nai Basti, Gali No. 6,
Bhatinda-151001, Punjab.
Tel 0164-2237945, Fax 0164-2252688. | Member |
| 7. Chairman
Andhra Pradesh Spinning Mills Association
105, 1st Floor, Surya Towers,
Sardar Patel Road,
Secunderabad-500003
Andhra Pradesh | Member | 4. President,
Tamil Nadu Cotton Ginning Pressing
Traders, & Growers Federation,
Pollachi-642004,
Coimbatore District, Tamil Nadu. | Member |

COTTON TRADE

- | | |
|--|--------|
| 1. Managing Director,
Maharashtra State Cooperative Cotton
Growers Marketing Federation Ltd.,
Khetan Bhawan, J. Tata Road,
Churchgate,
Mumbai-400020. | Member |
| 2. President,
Cotton Association of India,
2nd Floor, Cotton Exchange Bldg.,
Cotton Green, Mumbai-400033. | Member |

5. Following meeting of the Consultative Committee, the CAB shall convene separately to formulate the cotton balance sheet.

6. The non official members will be allowed TA/DA for attending the meetings of the Board/Consultative Committee in accordance with the instructions of Ministry of Finance. Textiles Commissioner may invite individuals with considerable experience in cotton economy for the meetings of the Consultative Committee.

7. The attendance in the meetings of the Board is restricted to the Members only.

8. Ordered that the copy of this Resolution be communicated to all concerned.

9. Ordered also that it be published in the Gazette of India.

R. K. SRIVASTAVA
Under Secy.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2013

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND
PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2013